

# बैंक के कार्य



राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

जागरूकता विकास शृंखला: 16

## बैंक के कार्य

कोड नं.	:	009 (III)
लेखक	:	जुगलकिशोर भारकर संघ्या शाहबी
संपादन	:	तारा जायशवाल नियति सप्रे
चित्रांकन	:	इरमाइल लहरी दीपक मालवी
संस्करण	:	द्वितीय, मार्च, 2009
प्रतियाँ	:	1500
मूल्य	:	रुपये 12.00

### © प्रकाशकाधीन

प्रकाशक	:	राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा भारतीय ज्ञानीण महिला संघ, महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इंदौर-452010, न.प्र. फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573
	e-mail:	srcmpindore@gmail.com literacy@sify.com
	Web:	<a href="http://www.srcindore.org">www.srcindore.org</a>
मुद्रक	:	गोयनका ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लि., इंदौर

## आमुख

नवसाक्षरों के कौशल विकास एवं उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। ये पुस्तिकाएं नवसाक्षरों की जानकारी में वृद्धि करने में सहायक होंगी। साथ ही विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करेंगी।

प्रस्तुत पुस्तक 'बैंक के कार्य' में बैंक द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में बताया गया है।

इस पुस्तिका के लिए जानकारी संकलन कर पुस्तिका लेखन का कार्य श्री जुगलकिशोर भास्कर एवं सुश्री संध्या शास्त्री द्वारा किया गया है। पुस्तिका के लिए चित्रांकन श्री इस्माइल लहरी एवं श्री दीपक मालवी द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

कुन्दा सुपेकर  
निदेशक  
राज्य संसाधन केन्द्र,  
प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

## विषय सूची

अ.क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय-1	बैंक में खाता खोलना	3
अध्याय-2	खातों के प्रकार	8
अध्याय-3	अन्य सुविधाएँ	10
अध्याय-4	ऋण देना	13
अध्याय-5	ध्यान रखने योग्य बातें	14
अध्याय-6	कोर बैंकिंग	16
अध्याय-7	ए.टी.एम. के सुविधा देने वाले बैंक की सूची	17

## बैंक में खाता खोलना

बैंक एक ऐसी संस्था है जो रुपयों का लेन-देन करती है। बैंक में खाता खुलवा कर अपने धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। जरूरत होने पर बैंक से इस धन को आसानी से निकाला जा सकता है।

नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जोखिम भरा होता है। ऐसे में चोरी होने या जेब कटने का डर रहता है। बैंक के माध्यम से रुपयों का लेन-देन करने पर जेब कटने या चोरी होने का डर नहीं रहता है। रुपयों के लेन-देन के अलावा बैंक के बहुत से काम हैं। उन कामों की जानकारी इस पुस्तिका में दी जा रही है।



## खाता खोलने का तरीका

### घोषणा पत्र भरना:

खाता खोलने के लिए बैंक द्वारा एक फार्म दिया जाता है। इस फार्म में व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी भरना होता है। जैसे- नाम, उम्र, व्यवसाय, पता, फोन/मोबाइल नंबर आदि।

- ◆ बैंक में खाता खोलने संबंधी नियम फार्म में दिए रहते हैं। नियमों को पढ़कर ही पूरी जानकारी भरना चाहिए।
- ◆ फार्म में पासपोर्ट आकार के तीन फोटो भी लगाने होते हैं।
- ◆ फार्म के साथ ही निवास स्थान की पहचान के किसी एक दस्तावेज की फोटो कापी भी लगानी होती है। जैसे- राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल आदि।

### परिचयकर्ता के हस्ताक्षर:

बैंक के लिए खाता खुलवाने वाला व्यक्ति अपरिचित रहता है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को उसका परिचय देना होता है जिसका पहले से बैंक में खाता हो। वह व्यक्ति परिचयकर्ता के हस्ताक्षर वाले स्थान पर अपना नाम व खाता क्रमांक लिखता है। इससे बैंक

को नए ग्राहक पर विश्वास हो जाता है। बैंक में कोई भी खाता बिना परिचय के नहीं खोला जा सकता है।

### नमूने के हस्ताक्षर :

खाता खोलने वाले व्यक्ति से बैंक एक अलग फार्म पर तीन-चार जगह हस्ताक्षर करवा लेती है। ये नमूने के हस्ताक्षर कहलाते हैं।

- ◆ खातेदार को जब भी रुपए निकालने होते हैं। उसे चेक या रुपए निकलवाने की पर्ची पर यही हस्ताक्षर करने होते हैं।
- ◆ हस्ताक्षर से नमूने के हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद ही बैंक रुपयों का भुगतान करती है।
- ◆ हस्ताक्षर नहीं मिलने की स्थिति में बैंक भुगतान रोक देती है।

### न्यूनतम रकम :

खाता खुलवाते समय खातेदार को खाते में एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। यह रकम अलग-अलग बैंकों के नियमानुसार अलग-अलग होती है। खातेदार के खाते में न्यूनतम रकम रखना जरूरी है। ऐसा न करने पर खातेदार को हर्जाने के रूप में सेवा प्रभार चुकाना पड़ता है।

## पास बुक :

बैंक में खाता खुल जाने पर बैंक द्वारा एक छोटी-सी पुस्तक दी जाती है। इसे पास बुक कहते हैं। इसमें खातेदार द्वारा जमा की गई व निकाली गई राशियों का विवरण रहता है। रुपए जमा करने पर पास बुक में जमा के खाते में यह रकम लिख दी जाती है। इसी प्रकार रुपए निकालने पर भी पास बुक में इंट्री की जाती है। इस प्रकार पास बुक में खातेदार व बैंक के लेन-देन का पूरा हिसाब रहता है।

## बैंक में रुपया जमा करने का तरीका :

बैंक में रुपया जमा कराने के लिए एक छोटी पर्ची होती है। इसे भरकर बैंक में देना होता है। इस पर्ची में खाता क्रमांक, दिनांक, खातेदार का नाम, जमा की जाने वाली रकम, शब्दों व अंकों में आदि जानकारी रहती है। उसे भरकर हस्ताक्षर करना होते हैं। पर्ची

<p>STATE BANK OF INDIA MUMBAI - 400001 Branch - Mumbai For credit of the Savings Account/Cash Deposit Book Last Account No. 1234567890 Name _____ Date _____ For amount in words _____ Signature _____ Date _____</p>	<p>STATE BANK OF INDIA MUMBAI - 400001 For credit of the Savings Account/Cash Deposit Book Last Account No. 1234567890 Name _____ Date _____ For amount in words _____ Signature _____ Date _____</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">S.No.</th> <th style="width: 15%;">Date</th> <th style="width: 15%;">Amount</th> <th style="width: 15%;">Description</th> <th style="width: 15%;">Signature</th> <th style="width: 15%;">Signature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>56</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>57</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>58</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>59</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>61</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>62</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>64</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>65</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>66</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>67</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>68</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>69</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>70</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>71</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>72</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>73</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>74</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>75</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>76</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>77</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>78</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>79</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>81</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>82</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>83</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>84</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>85</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>86</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>87</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>89</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>91</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>92</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>93</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>94</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>95</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>96</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>97</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>98</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>99</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>101</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>102</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>103</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>104</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>105</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>106</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>107</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>109</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>113</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>114</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>115</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>116</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>117</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>118</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>119</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>121</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>122</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>123</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>124</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>125</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>126</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>127</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>128</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>129</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>130</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>131</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>132</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>133</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>134</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>136</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>137</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>138</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>139</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>141</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>142</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>143</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>144</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>145</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>146</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>147</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>148</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>149</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>151</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>152</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>153</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>154</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>155</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>156</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>157</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>158</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>159</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>161</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>162</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>163</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>164</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>165</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>166</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>167</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>168</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>169</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>170</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>171</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>172</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>173</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>174</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>175</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>176</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>177</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>178</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>179</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>181</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>182</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>183</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>184</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>185</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>186</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>187</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>188</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>189</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>190</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>191</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>192</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>193</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>194</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>195</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>196</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>197</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>198</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>199</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>201</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>202</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>203</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>204</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>205</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>206</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>207</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>208</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>209</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>211</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>212</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>213</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>214</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>215</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>216</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>217</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>218</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>219</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>220</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>221</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>223</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>226</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>227</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>228</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>229</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>230</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>231</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>232</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>233</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>234</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>235</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>236</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>237</td><td>10/01/2023</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>238</td><td>10/01/2023</td><td>1</td></tr></tbody></table>		S.No.	Date	Amount	Description	Signature	Signature	1	10/01/2023	1000				2	10/01/2023	1000				3	10/01/2023	1000				4	10/01/2023	1000				5	10/01/2023	1000				6	10/01/2023	1000				7	10/01/2023	1000				8	10/01/2023	1000				9	10/01/2023	1000				10	10/01/2023	1000				11	10/01/2023	1000				12	10/01/2023	1000				13	10/01/2023	1000				14	10/01/2023	1000				15	10/01/2023	1000				16	10/01/2023	1000				17	10/01/2023	1000				18	10/01/2023	1000				19	10/01/2023	1000				20	10/01/2023	1000				21	10/01/2023	1000				22	10/01/2023	1000				23	10/01/2023	1000				24	10/01/2023	1000				25	10/01/2023	1000				26	10/01/2023	1000				27	10/01/2023	1000				28	10/01/2023	1000				29	10/01/2023	1000				30	10/01/2023	1000				31	10/01/2023	1000				32	10/01/2023	1000				33	10/01/2023	1000				34	10/01/2023	1000				35	10/01/2023	1000				36	10/01/2023	1000				37	10/01/2023	1000				38	10/01/2023	1000				39	10/01/2023	1000				40	10/01/2023	1000				41	10/01/2023	1000				42	10/01/2023	1000				43	10/01/2023	1000				44	10/01/2023	1000				45	10/01/2023	1000				46	10/01/2023	1000				47	10/01/2023	1000				48	10/01/2023	1000				49	10/01/2023	1000				50	10/01/2023	1000				51	10/01/2023	1000				52	10/01/2023	1000				53	10/01/2023	1000				54	10/01/2023	1000				55	10/01/2023	1000				56	10/01/2023	1000				57	10/01/2023	1000				58	10/01/2023	1000				59	10/01/2023	1000				60	10/01/2023	1000				61	10/01/2023	1000				62	10/01/2023	1000				63	10/01/2023	1000				64	10/01/2023	1000				65	10/01/2023	1000				66	10/01/2023	1000				67	10/01/2023	1000				68	10/01/2023	1000				69	10/01/2023	1000				70	10/01/2023	1000				71	10/01/2023	1000				72	10/01/2023	1000				73	10/01/2023	1000				74	10/01/2023	1000				75	10/01/2023	1000				76	10/01/2023	1000				77	10/01/2023	1000				78	10/01/2023	1000				79	10/01/2023	1000				80	10/01/2023	1000				81	10/01/2023	1000				82	10/01/2023	1000				83	10/01/2023	1000				84	10/01/2023	1000				85	10/01/2023	1000				86	10/01/2023	1000				87	10/01/2023	1000				88	10/01/2023	1000				89	10/01/2023	1000				90	10/01/2023	1000				91	10/01/2023	1000				92	10/01/2023	1000				93	10/01/2023	1000				94	10/01/2023	1000				95	10/01/2023	1000				96	10/01/2023	1000				97	10/01/2023	1000				98	10/01/2023	1000				99	10/01/2023	1000				100	10/01/2023	1000				101	10/01/2023	1000				102	10/01/2023	1000				103	10/01/2023	1000				104	10/01/2023	1000				105	10/01/2023	1000				106	10/01/2023	1000				107	10/01/2023	1000				108	10/01/2023	1000				109	10/01/2023	1000				110	10/01/2023	1000				111	10/01/2023	1000				112	10/01/2023	1000				113	10/01/2023	1000				114	10/01/2023	1000				115	10/01/2023	1000				116	10/01/2023	1000				117	10/01/2023	1000				118	10/01/2023	1000				119	10/01/2023	1000				120	10/01/2023	1000				121	10/01/2023	1000				122	10/01/2023	1000				123	10/01/2023	1000				124	10/01/2023	1000				125	10/01/2023	1000				126	10/01/2023	1000				127	10/01/2023	1000				128	10/01/2023	1000				129	10/01/2023	1000				130	10/01/2023	1000				131	10/01/2023	1000				132	10/01/2023	1000				133	10/01/2023	1000				134	10/01/2023	1000				135	10/01/2023	1000				136	10/01/2023	1000				137	10/01/2023	1000				138	10/01/2023	1000				139	10/01/2023	1000				140	10/01/2023	1000				141	10/01/2023	1000				142	10/01/2023	1000				143	10/01/2023	1000				144	10/01/2023	1000				145	10/01/2023	1000				146	10/01/2023	1000				147	10/01/2023	1000				148	10/01/2023	1000				149	10/01/2023	1000				150	10/01/2023	1000				151	10/01/2023	1000				152	10/01/2023	1000				153	10/01/2023	1000				154	10/01/2023	1000				155	10/01/2023	1000				156	10/01/2023	1000				157	10/01/2023	1000				158	10/01/2023	1000				159	10/01/2023	1000				160	10/01/2023	1000				161	10/01/2023	1000				162	10/01/2023	1000				163	10/01/2023	1000				164	10/01/2023	1000				165	10/01/2023	1000				166	10/01/2023	1000				167	10/01/2023	1000				168	10/01/2023	1000				169	10/01/2023	1000				170	10/01/2023	1000				171	10/01/2023	1000				172	10/01/2023	1000				173	10/01/2023	1000				174	10/01/2023	1000				175	10/01/2023	1000				176	10/01/2023	1000				177	10/01/2023	1000				178	10/01/2023	1000				179	10/01/2023	1000				180	10/01/2023	1000				181	10/01/2023	1000				182	10/01/2023	1000				183	10/01/2023	1000				184	10/01/2023	1000				185	10/01/2023	1000				186	10/01/2023	1000				187	10/01/2023	1000				188	10/01/2023	1000				189	10/01/2023	1000				190	10/01/2023	1000				191	10/01/2023	1000				192	10/01/2023	1000				193	10/01/2023	1000				194	10/01/2023	1000				195	10/01/2023	1000				196	10/01/2023	1000				197	10/01/2023	1000				198	10/01/2023	1000				199	10/01/2023	1000				200	10/01/2023	1000				201	10/01/2023	1000				202	10/01/2023	1000				203	10/01/2023	1000				204	10/01/2023	1000				205	10/01/2023	1000				206	10/01/2023	1000				207	10/01/2023	1000				208	10/01/2023	1000				209	10/01/2023	1000				210	10/01/2023	1000				211	10/01/2023	1000				212	10/01/2023	1000				213	10/01/2023	1000				214	10/01/2023	1000				215	10/01/2023	1000				216	10/01/2023	1000				217	10/01/2023	1000				218	10/01/2023	1000				219	10/01/2023	1000				220	10/01/2023	1000				221	10/01/2023	1000				222	10/01/2023	1000				223	10/01/2023	1000				224	10/01/2023	1000				225	10/01/2023	1000				226	10/01/2023	1000				227	10/01/2023	1000				228	10/01/2023	1000				229	10/01/2023	1000				230	10/01/2023	1000				231	10/01/2023	1000				232	10/01/2023	1000				233	10/01/2023	1000				234	10/01/2023	1000				235	10/01/2023	1000				236	10/01/2023	1000				237	10/01/2023	1000				238	10/01/2023	1
S.No.	Date	Amount	Description	Signature	Signature																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
56	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
57	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
58	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
59	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
60	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
61	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
62	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
63	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
64	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
65	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
66	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
67	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
68	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
69	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
70	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
71	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
72	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
73	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
74	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
75	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
76	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
77	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
78	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
79	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
81	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
82	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
83	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
84	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
86	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
87	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
89	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
90	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
91	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
92	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
93	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
94	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
95	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
97	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
98	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
101	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
102	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
103	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
104	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
105	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
107	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
108	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
109	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
110	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
111	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
112	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
113	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
114	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
115	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
116	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
117	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
118	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
119	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
120	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
121	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
122	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
123	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
124	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
125	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
126	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
127	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
128	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
129	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
130	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
131	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
132	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
133	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
134	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
135	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
136	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
137	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
138	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
139	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
140	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
141	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
142	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
143	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
144	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
145	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
146	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
147	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
148	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
149	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
150	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
151	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
152	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
153	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
154	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
155	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
156	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
157	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
158	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
159	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
160	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
161	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
162	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
163	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
164	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
165	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
166	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
167	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
168	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
169	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
170	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
171	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
172	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
173	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
174	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
175	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
176	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
177	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
178	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
179	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
180	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
181	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
182	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
183	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
184	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
185	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
186	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
187	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
188	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
189	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
190	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
191	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
192	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
193	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
194	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
195	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
196	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
197	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
198	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
199	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
200	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
201	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
202	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
203	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
204	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
205	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
206	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
207	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
208	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
209	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
210	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
211	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
213	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
214	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
215	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
216	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
217	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
218	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
219	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
220	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
224	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
225	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
226	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
227	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
228	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
229	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
230	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
232	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
233	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
234	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
235	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
236	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
237	10/01/2023	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
238	10/01/2023	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

पर जमा किए जाने वाले नोटों का विवरण लिखना होता है। यह पच्ची भरकर बैंक के निर्धारित काउण्टर पर देना होती है। साथ में जमा की जाने वाली राशि दी जाती है। रकम जमा हो जाने पर पास बुक में उसका विवरण लिखकर पास बुक खातेदार को दे दी जाती है। चेक के द्वारा भी बैंक में रुपया जमा किया जा सकता है।

### बैंक से रुपया निकालने का तरीका :

बैंक से रुपया चेक द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा तथा ए.टी.एम. से निकाला जा सकता है। रुपए निकालने के लिए भी एक पच्ची होती है। इसमें खाता क्रमांक, खातेदार का नाम, दिनांक, निकाली जाने वाली राशि, हस्ताक्षर आदि जानकारी भरनी होती है। इसे भरकर पास बुक के साथ बैंक के निर्धारित काउण्टर पर दी जाती है। पूर्ण विवरण सही होने पर बैंक के नगद भुगतान वाले काउण्टर से राशि दी जाती है।

<div style="text-align: center;">    <b>स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर</b>  <b>STATE BANK OF INDORE</b>          इस पर्मि के साथ पाता तुला होता राख देता है।          Pass Book Must Accompany This Dasher Form       </div>	<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           निकाली स्लिप/पत्र WITHDRAWAL SLIP/FORM            पत्र/L.F. ..... ल.ए./INITIALS.....            बचत बैंक खाता क्र./S.B.A/C NO. .....         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           राशि BRANCH ..... 200            पुढ़े रुपये            PAY SELF RUPEES.....            रु. Rs. .....         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">           खाते से राशि अदा करें  <b>WITHDRAWAL FROM ACCOUNT OF.....</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">           पास करने वाले अधिकारी            Passing Official .....            Full Name .....            Code No. 03/1065 E No. 08/2005/R.S.P         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <b>हस्ताक्षर/ Signature</b> </td> </tr> </table>	निकाली स्लिप/पत्र WITHDRAWAL SLIP/FORM पत्र/L.F. ..... ल.ए./INITIALS..... बचत बैंक खाता क्र./S.B.A/C NO. .....	राशि BRANCH ..... 200 पुढ़े रुपये PAY SELF RUPEES..... रु. Rs. .....	खाते से राशि अदा करें <b>WITHDRAWAL FROM ACCOUNT OF.....</b>		पास करने वाले अधिकारी Passing Official ..... Full Name ..... Code No. 03/1065 E No. 08/2005/R.S.P		<b>हस्ताक्षर/ Signature</b>	
निकाली स्लिप/पत्र WITHDRAWAL SLIP/FORM पत्र/L.F. ..... ल.ए./INITIALS..... बचत बैंक खाता क्र./S.B.A/C NO. .....	राशि BRANCH ..... 200 पुढ़े रुपये PAY SELF RUPEES..... रु. Rs. .....								
खाते से राशि अदा करें <b>WITHDRAWAL FROM ACCOUNT OF.....</b>									
पास करने वाले अधिकारी Passing Official ..... Full Name ..... Code No. 03/1065 E No. 08/2005/R.S.P									
<b>हस्ताक्षर/ Signature</b>									

## खातों के प्रकार

बैंक ग्राहकों के लिए कई प्रकार के खाते खोलता है। ग्राहक अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार बैंक में खाता खुलवा सकता है। बैंक में खोले जाने वाले प्रमुख खातों की जानकारी इस प्रकार है-

**बचत खाता-** छोटी-छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक बचत खाते की सुविधा देती है। इस खाते में से ग्राहक कभी भी रुपया निकाल सकता है। बैंक इन खातों की राशि का उपयोग नहीं करती। इसलिए इस खाते पर कम ब्याज दिया जाता है।

**चालू खाता-** इस खाते में जमा की गई रकम चाहे जितनी बार जमा एवं निकाली जा सकती है। इस खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है बल्कि बैंक शुल्क लेता है। यह खाता व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

**नगद-उधार खाता-** यह खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है। सामान खरीदने-बेचने के लिए व्यापारी द्वारा इस

खाते का उपयोग किया जाता है। जिससे व्यापारी को दिनभर हुए सौदों का हिसाब-किताब रखने में सहायता मिलती है।

**आवर्ती जमा खाता-** इस खाते में केवल एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। इस खाते में एक साल से लेकर 10 साल तक के लिए रकम जमा की जा सकती है। कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर खाते में से निश्चित अवधि के पूर्व रकम नहीं निकाली जा सकती। चूंकि इस खाते में जमा राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के पश्चात् ही किया जाता है। इस खाते पर बैंक अधिक ब्याज देती है।

**मनी बॉक्स खाता-** मनी बॉक्स खाता विशेषकर बच्चों के लिए होता है। इसमें बैंक द्वारा एक बॉक्स दिया जाता है, जिसमें बच्चों द्वारा पैसा डाला जाता है। बैंक के एजेन्ट द्वारा हर माह उस बॉक्स की राशि बैंक में जमा कर दी जाती है।

**ऋण खाता-** इस खाते के अंतर्गत ग्राहकों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे- गृह ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, कृषि के लिए ऋण, व्यापार या उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण, विदेश यात्रा के लिए ऋण आदि। □

## अन्य सुविधाएँ

बैंक द्वारा खातेदार को निम्न सुविधाएँ दी जाती हैं। खातेदार इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है।

- ◆ एटीएम. कार्ड के द्वारा खातेदार 24 घण्टे में कभी भी रुपए अपने खाते में से निकाल सकता है। रुपए निकालने के बाद एटीएम. द्वारा शेष जमा राशि की पर्ची भी मिलती है।
  - ◆ क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बैंक देता है। खातेदार कहीं से भी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ/सामान खरीदकर भुगतान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकता है।
  - ◆ बैंक ड्राफ्ट- किसी को रुपया भेजने के लिए खातेदार बैंक ड्राफ्ट का उपयोग कर सकता है।

- ◆ **गिफ्ट चेक**- खातेदार उपहार के रूप में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार को गिफ्ट चेक भेंट कर सकता है। बैंक उस पर अपना कमीशन नहीं लेती है।
- ◆ **सरकारी टैक्स जमा करना**- इस सुविधा में खातेदार सरकार को दिए जाने वाले कर जैसे- आयकर, विक्रयकर आदि का भुगतान बैंक चालान के द्वारा सीधे सरकार को कर सकता है।
- ◆ **लाकर्स**- लाकर्स की सुविधा भी बैंक द्वारा दी जाती है। लाकर्स में कीमती सामान, महत्वपूर्ण कागज, जेवर आदि रखे जाते हैं।



- ◆ बिलों का भुगतान- विजली के बिल व टेलीफोन के बिलों के भुगतान की सुविधा भी बैंक द्वारा दी जाती है।
- ◆ चेक बुक- खातेदार को बैंक एक चेक पुस्तिका देती है। वह चेक बुक आवश्यकतानुसार, दस, पच्चीस, पचास एवं सौ चेक की होती है। चेक पर नमूने वाले हस्ताक्षर ही होने चाहिए। चेक पर दी जाने वाली रकम, तारीख तथा व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। चेक द्वारा वह किसी को भी भुगतान कर सकता है।

चेक दो प्रकार के होते हैं:

1. वाहक चेक (बीयरर चेक)- इसमें चेक पर वाहक (लाने वाले) का नाम लिखा होता है। बैंक में यह चेक पेश होने पर लाने वाले व्यक्ति को बैंक रकम का भुगतान कर देती है।

2. क्रॉस या रेखांकित चेक- इस प्रकार के चेक में वाहक के नाम के साथ चेक में बाई ओर ऊपर ए/सी पेयी लिखा जाता है। ऐसा करने पर बैंक जिस व्यक्ति के नाम का चेक है उसके खाते में रकम जमा कर देती है। रेखांकित चेक का नगद भुगतान नहीं होता। इसमें जिस व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है उसका किसी बैंक में खाता होना जरूरी है। रेखांकित चेक में चेक गुम हो जाने पर गलत व्यक्ति को भुगतान होने का डर नहीं रहता।

## ऋण देना

रुपया-पैसा जमा करने के साथ ही बैंक ऋण देने का भी कार्य करती है। बैंक ग्राहकों द्वारा जमा की गई रकम का अधिकांश भाग ऋण के रूप में देती है। बैंक को सबसे अधिक आय ऋण के ब्याज से ही होती है। इस आय से बैंक अपने खर्च निकालती है और जमा रकम पर ग्राहकों को ब्याज देती है।

**बैंक निम्नलिखित ऋण सुविधा देती है-** गृह ऋण, उच्चशिक्षा के लिए ऋण, वाहन खरीदने हेतु ऋण, कृषि कार्य हेतु ऋण, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु पालन आदि के लिए ऋण देती है। साथ ही कुछ ऋण पर सरकारी योजनाओं के नियमानुसार बैंक अनुदान भी देती है।

ऋण देते समय बैंक ऋण लेने वाले की निजी पूँजी या नियमित आय को ध्यान में रखती है। साथ ही उसके चरित्र और क्षमता को भी ध्यान में रखती है। □

बैंक से व्यवहार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

- ◆ बैंक में खाता खुलवाते समय नामित (नॉमिनी) का नाम अवश्य लिखना चाहिए।
- ◆ बैंक में खाता खुलवाने से पहले उस खाते व उस पर मिलने वाले ब्याज के बारे में पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए।
- ◆ खाता खुलवाते समय किए जाने वाले हस्ताक्षर नमूने के तौर पर अपने पास रख लेना चाहिए। हस्ताक्षर में जरा भी बदलाव होने पर बैंक लेन-देन नहीं करती।
- ◆ बैंक में लेन-देन संबंधी जरा भी काटा-पीटी नहीं होना चाहिए। चेक पर भी नाम, दिनांक, रकम आदि लिखकर काटने पर चेक का भुगतान नहीं किया जाता है।
- ◆ रकम जमा करते या निकालते समय पासबुक हमेशा साथ में रखनी चाहिए ताकि लेन-देन का पूर्ण विवरण आपके पास रहे।
- ◆ जमा करने या रकम निकालने की पर्ची भरते समय पूरी जानकारी बहुत ध्यान से भरना चाहिए।

- ◆ जिस व्यक्ति को चेक दिया जा रहा है। यदि वह विश्वास पात्र न हो तो रेखांकित चेक देना चाहिए। इसका भुगतान नकद न होकर उसके खाते में ही राशि जमा होती है।
- ◆ बैंक से रकम निकालते या चेक भरते समय खाते में जमा रकम को देख लेना चाहिए। चेक निरस्त होने की दशा में बैंक द्वारा दण्डस्वरूप हर्जाना लिया जाता है।
- ◆ पासबुक, चेक बुक या चेक गुम होने की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए।
- ◆ बैंक में जमा की गई राशि की यदि एफ.डी. बनाई हो तो उसे प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता द्वारा मांग किया जाना आवश्यक है। भले ही जमा राशि की निर्धारित अवधि बीत चुकी हो।
- ◆ जमा पर्ची या चेक पर संशोधन करने पर उसके पास जमाकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इससे यह निश्चित हो जाता है कि किए गए परिवर्तन जमाकर्ता की जानकारी में हैं।
- ◆ वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर बैंक अधिक दर से ब्याज देती है।

## कोर बैंकिंग

बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। कोर बैंकिंग में देश-विदेशों की सम्बन्धित बैंक की अन्य शाखाओं में रकम जमा की जा सकती है या निकाली जा सकती है।

**कोर बैंकिंग की सुविधा देने वाले प्रमुख बैंक:**

- ◆ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- ◆ बैंक ऑफ इण्डिया
- ◆ केनरा बैंक
- ◆ आई.सी.आई.सी.आई.
- ◆ आई.डी.बी.आई. बैंक

## ए.टी.एम. की सुविधा देने वाले बैंकों की सूची

- ◆ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- ◆ स्टेट बैंक ऑफ इन्डौर
- ◆ पंजाब नेशनल बैंक
- ◆ केनरा बैंक
- ◆ ओवरसीज बैंक
- ◆ आईसीआईसीआई बैंक
- ◆ यूको बैंक
- ◆ बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- ◆ आईडीबीआई बैंक
- ◆ साऊथ इंडियन बैंक
- ◆ एच.डी.एफ.सी. बैंक
- ◆ यूनियन बैंक
- ◆ इलाहाबाद बैंक
- ◆ बैंक ऑफ बड़ौदा
- ◆ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- ◆ कर्नाटका बैंक
- ◆ देना बैंक
- ◆ एच.बी.एस.सी. बैंक
- ◆ राजस्थान बैंक
- ◆ ओ.बी.सी. बैंक
- ◆ सेन्ट्रल बैंक
- ◆ सिंडीकेट बैंक



## जागरूकता संबंधी हमारे प्रकाशन

- ◆ सहोदरा
- ◆ प्राथमिक उपचार
- ◆ भूल
- ◆ सुरक्षित मातृत्व
- ◆ आहार और जीवन
- ◆ जब जागे तभी सबेरा
- ◆ विनोद की बापसी
- ◆ वाह उस्ताद जयराम
- ◆ पौष्टिक व्यंजन
- ◆ गुड़खू की कहानी
- ◆ नई राह
- ◆ गोकरण का विवाह
- ◆ माँ की ममता
- ◆ सेहत का मूलमन्त्र
- ◆ सफाई से सेहत
- ◆ बीमारियां क्यों ?
- ◆ शांति चली ससुराल
- ◆ हमारी दुनिया
- ◆ ग्रामीण पेयजल योजना
- ◆ स्वच्छ शौचालय
- ◆ स्वास्थ्य योजनाएँ
- ◆ सुरक्षित मातृत्व
- ◆ घरेलू उपचार
- ◆ बीमा योजनाएँ
- ◆ सूरज का कमाल
- ◆ कमजोरी का स्वयंबर
- ◆ कूड़े कचरे का निपटारा
- ◆ कूड़े कचरे से सोना
- ◆ प्रमुख बीमारियाँ
- ◆ पशुओं से होने वाली बीमारियाँ
- ◆ यातायात के नियम
- ◆ दिखावा
- ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
- ◆ सूझबूझ
- ◆ रोजगार योजनाएँ
- ◆ सौ दिन सुनहरे
- ◆ रक्तदान महादान

प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)  
महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर-452010 फोन-25519117, 2574104 फैक्स-0731-2551573

Email - [sr cmpindore@gmail.com](mailto:sr cmpindore@gmail.com) • [literacy@satyam.net.in](mailto:literacy@satyam.net.in)

मुद्रक : गोयनका ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., इन्दौर • फोन : 2412800, 2411900